

**शादी समारोह में फायरिंग करके एक युवक को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार :-** थाना सिहानीगेट क्षेत्र के नंदग्राम विकलांग कॉलोनी में दिनांक 24.04.19 की रात्रि को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी जिसमे एक युवक गोली लगने से घायल हो गया था। थाना सिहानीगेट पर उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 669/19 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय 18.35 बजे नगर निगम गेट से उक्त घटना (मु0अ0सं0- 669/19 धारा 307 भादवि) के फरार आरोपी दीपक पुत्र मुरारीलाल निवासी झुग्गी न0- 22 सीमापुरी, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

**200 ग्राम नशीला पाउडर सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय 10.30 बजे नसबंदी तिराहा से अभियुक्त आफताब पुत्र जमील निवासी नसबंदी कॉलोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है।

### **थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान पकड़े गये बदमाश से लूट का माल**

**खरीदने वाले 02 ज्वैलर्स गिरफ्तार व लूटे गये जेवरात बरामद:-** थाना लिंक रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/19 धारा 392/411 भादवि व 171/19 धारा 392/411 भादवि की विवेचना के दौरान अभि0 किशन लाल भूटानी उर्फ गौरव पुत्र तिलक राज भूटानी निवासी म0नं0 213 गली नं0 05 ज्वाला नगर कस्वा व थाना शाहदरा द्वारा बताये गये ज्वैलर्स के यहाँ दबिश देकर म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली से अभि0 डी.एन.डी. ज्वैलर्स दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह नि0 म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली व गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली अभि0 विक्की पुत्र स्व0 शिवराम नि0 गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की व गिरफ्तार किये गये अभि0 गण से 02 अदद सोने की चैन व 01 चैन का टुकड़ा बरामद हुआ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह नि0 म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली -सम्बन्धित  
मु0अ0सं0 177/19 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC
2. विक्की पुत्र स्व0 शिवराम नि0 गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली -  
सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/19 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-**

1. मु0अ0स0 736/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
2. मु0अ0सं0 642/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
3. मु0अ0सं0 700/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

**गिरफ्तारी घटनास्थल** – म0नं0 66 पाल गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली व गली नं0 6 म0नं0 379 ज्वाला नगर शाहदरा थाना विवेक विहार दिल्ली

**बरामदगी :**

**अभि0 दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नौवत सिंह**

1. 01 अदद सोने की चैन – सम्बन्धित मु0अ0स0 700/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

**अभि0 विक्की पुत्र स्व0 शिवराम**

1. 01 अदद सोने की चैन - मु0अ0स0 736/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
2. 01 चैन का टुकड़ा – मु0अ0सं0 642/19 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम

**149 पच्चा अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 11.10 बजे सम्राट चौक से अभियुक्त रजा पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 149 पच्चे अवैध शराब अंग्रेजी हरियाणा मार्का बरामद हुई है |

**एक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद :-** थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 10.50 बजे अगरौला से अभियुक्त बिट्टू पुत्र इस्लाम निवासी वेस्ट करावलनगर जगत डेरी के सामने थाना खजुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 03 मोबाइल फोन सम्बंधित मु0अ0सं0- 276/19 धारा 380 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी बरामद हुए है |

**04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 1620 रुपये नकद व 52 ताश के पत्ते बरामद :-** थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 26.04.19 को समय 09.00 बजे GDA फ्लैट अर्थला से अभियुक्तगण 1. मुर्सलिम उर्फ भुट्टो पुत्र रिहिमुधीन निवासी मौहल्ला सिहानी थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद 2. पुष्पेन्द्र पुत्र सुंदर निवासी अम्बेडकर पार्क GDA फ्लैट अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 3. शमशाद पुत्र मौ0 रहीश निवासी संजय कॉलोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 4. वसीम पुत्र यामीन निवासी पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 1620 रूपये नकद व 52 पत्ते ताश के बरामद हुए है |